

INNOVATION FESTIVAL 2018: ईको फ्रेंडली माँडल हुए पुरस्कृत

VINEET SINGH 01/02/2018 15:11:42



Tweet

47 Views



Lucknow. आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ में आयोजित नवप्रवर्तन महोत्सव का समापन हो गया है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि डा.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय, लखनऊ के डीन प्रो.के.वी. आर्या थे। इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों से कुल 50 प्रोजेक्ट प्रदर्शित किये गये। जिनमें से से कुछ नवप्रवर्तन प्रोजेक्ट जैसे कि एयर-ओ-बाईक, यूनिवर्सल ब्रिक्स, फर्टिलाईजर मेड ऑफ ह्यूमन हेयर, मैनुअल वाशिंग मशीन, एयर स्क्रबर, ब्लाइंड स्टिक, चार्जर उपकरण (चलते-चलते या जूते पहन कर चलने पर), सोलर ऊर्जा से चलने वाली साइकिल, इको फ्रेंडली सिटी के माँडल आदि प्रस्तुत किये गये। जिनमें से कुछ को पुरस्कृत भी किया गया।



अपने सम्बोधन में प्रो. के.वी.आर्या ने बच्चों द्वारा बनाये गये प्रोजेक्ट्स को देखकर बहुत सराहा। अपने वक्तव्य के माध्यम से उन्होंने बच्चों को उनकी रुचि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। साथ ही उन्होंने थॉमस एल्वा एडीसन और आइन्सटीन का उदाहरण देते हुए विद्यार्थियों को बताया कि ये वे लोग हैं जिनके अन्दर कुछ अलग कर दिखाने की लालसा थी और वे उसी दिशा में आगे बढ़े जिसमें उनकी रुचि थी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जब वे स्वतः प्रेरित होंगे तभी वे कुछ नया सोचने और नवाचार करने के लिए आगे बढ़ सकेंगे।



जहां इस कार्यक्रम में स्कूल प्रोजेक्ट श्रेणी में विद्याज्ञान स्कूल, सीतापुर की मंजरी सिंह एवं रजत सिंह को उनके “मिशन स्वच्छता” प्रोजेक्ट के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। द्वितीय पुरस्कार सेन्ट जोसेफ इण्टर कालेज, राजाजीपुरम की अनम हासमी को उनके प्रोजेक्ट “सुपर हेक्सागन” के लिए दिया गया तथा तृतीय पुरस्कार सेन्ट जोसेफ इण्टर कालेज, राजाजीपुरम के आर्य श्रीवास्तव को उनके एयर स्क्रबर के लिए दिया गया।



तो वहीं इंजीनियरिंग कालेज प्रोजेक्ट श्रेणी में एसएमएस कॉलेज के दीपक पाण्डेय को उनके एक्झास्ट एयर जैक प्रोजेक्ट के लिए प्रथम पुरस्कार और अमन मिश्रा को मैनिअली ड्रिवेन पैडल पावर वॉशिंग मशीन के लिए द्वितीय पुरस्कार और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के अब्दुर रहमान खान एवं अम्मार को उनके इंटर् लॉकिंग ब्रिक प्रोजेक्ट के लिए तृतीय पुरस्कार दिया गया।



साथ ही रोबोटिक्स प्रतियोगिता में सिटी मांटेसरी स्कूल के मलय कुमार, अरनव मिश्रा एवं अर्जुन विजय को प्रथम पुरस्कार, सेन्ट जोसेफ इण्टर कालेज, राजाजीपुरम के सुमित पाण्डेय एवं दीपक सिंह को द्वितीय और सेन्ट जोसेफ इण्टर कालेज, राजाजीपुरम के श्री रितेश वर्मा एवं अमन हासमी को तृतीय पुरस्कार दिया गया। आर्डियूनो रोबोटिक प्रतियोगिता में सेंट फिडसिल के शगुफता फराही और शाश्वत सक्सेना को प्रथम पुरस्कार, सेन्ट जोसेफ इण्टर कालेज, राजाजीपुरम के अश्वत मुकारिम, इशिता कपूर और वत्सला मिश्रा को द्वितीय पुरस्कार एवं विद्याज्ञान स्कूल सीतापुर के आशुतोष कुमार एवं अनुज मौर्या को तृतीय पुरस्कार दिया गया।